

महात्मा गाँधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती

आजादी के आप पुरोधा, भारत की पहचान हो बापू,
नाम तुम्हारा सदा अमर है, सूरज की संतान हो बापू।

गाँधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का ही जीवन अपने आप में एक मिसाल रहा है। गाँधी जी की अहिंसा और लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा आज के समय में भी लोगों को देश एवं समाज के प्रति सचेत होकर जनमानस के प्रति संवेदनशीलता का गुण सिखाती है और हमारे समाज और देश का भविष्य है हमारे नन्हे बच्चे। हर वर्ष की तरह देश की इसी भावी पीढ़ी में नैतिक शिक्षा और देशप्रेम की भावना को जगाकर बापू और शास्त्री जी समेत हमारे अनेक देशभक्तों जैसा जोश भरने के लिए बाल भारती विद्यालय, नोएडा के प्रांगण में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत अपना देश सवारे हम के साथ हुई जिसने बच्चों में जोश भर दिया। उसी के साथ बच्चों ने जाना कि शास्त्री जी के जीवन कौन-कौन से गुण अपने जीवन में अपनाकर बच्चे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कक्षा नवीं एवं दसवीं के विद्यार्थियों ने गाँधी जी के नाम पैगाम शीर्षक पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत वर्तमान समय की स्थितियों का बड़ा सटीक मंचन किया गया। प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा गाँधी जी की आवाज शीर्षक पर एक प्रभावी कविता प्रस्तुत की। बच्चों द्वारा स्वच्छता की प्रतिज्ञा ली गई एवं राष्ट्रगान का गायन किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती आशा प्रभाकर जी ने बच्चों को गाँधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों में चलने के लिए प्रेरित किया और कार्यक्रम में जोशपूर्ण प्रतिभाग के लिए उनकी सराहना की।

गाँधी जयंती की झाँकियाँ -



स्वच्छता की प्रतिज्ञा लेते विद्यार्थी



देशभक्ति में सरोबार बच्चे



गाँधी जी पर कविता



नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति



गाँधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों की प्रस्तुति

प्रतिवेदनकर्ता
रेनू पांडे

समग्र पर्यवेक्षक
प्राथमिक प्रमुख
विनया पुजारी